

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक:-16.05.21

थाना मिर्जापुर पुलिस को मिली कामयाबी,

शादी समारोह में हुये दो पक्षों में के विवाद में हुई सियाराम की मृत्यु की घटना में

थाना मिर्जापुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 03 लाठियाँ बरामद।

दिनांक 14.05.21 को श्री विजय कुमार पुत्र सियाराम नि0 बीघापुर सिठौली थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर द्वारा छाना मिर्जापुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि गाँव में शादी समारोह में लोकाचार के दौरान नेक देने को लेकर हुये विवाद में मेरे पिता सियाराम को गम्भीर चोट आयी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी, थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 150/21 धारा 147/304/323/504 भादवि पंजीकृत कर उच्चाधिकारीगण को इस घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्री संजीव कुमार वाजपेई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में श्री मरसा सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री मानबहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिये निर्देशित किया गया ।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष श्री मानबहादुर सिंह मय थाना पुलिस बल द्वारा तत्परता से मु0अ0सं0 150/21 धारा 147/304/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन चैकिंग अभियान एवं सम्भावित स्थानों पर दविश दी जाने लगी, कि मुखविर खास की सूचना मिलने पर घटना के 03 अभियुक्तों 1- अमित पुत्र बट्टीप्रसाद 2- दिनेश पुत्र केसरीलाल 3- गंगाप्रसाद पुत्र बट्टीप्रसाद को समय 00.36 बजे बीघापुर सिठौली मोड से गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अदद अलग-अलग लाठियाँ बरामद की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- अमित पुत्र बट्टीप्रसाद निवासी ग्राम बीघापुर सिठौली थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।
- 2- दिनेश पुत्र केसरीलाल निवासी ग्राम बीघापुर सिठौली थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।
- 3- गंगाप्रसाद पुत्र बट्टीप्रसाद निवासी ग्राम बीघापुर सिठौली थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 150/2021 धारा 147/304/323/504 IPC

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त 03 अदद अलग-अलग लाठियाँ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अजब सिंह थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 2- हे0काँ0 विनयकुमार थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 3- का0 राहुल भारती थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 4- का0 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 5- का0 प्रवीण कुमार थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 6- चालक HC देवेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

